

SHRI A. D. MANI : Has any estimate been made by the Government of the cost of the extension of the scheme to pensioners ?

DR. SUSHILA NAYAR : Sir, the cost, leaving aside hospitalisation, on the average person who is in this scheme is Rs. 90 per annum per family. So far as the pensioners are concerned, the cost is likely to be higher, because the sickness incidence in the older age group is high.

SHRI D. THENGARI : Does the Government not consider it desirable and fair to extend similar benefits, if not exactly this particular scheme, to the pensioners residing outside Delhi also ?

DR. SUSHILA NAYAR : We have not been able to cover the Government servants all over India so far. Therefore, to think of covering the pensioners all over India, I think, is a little premature.

श्री भगवत नारायण भार्गव : मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार ने कोई ऐसी सूची तैयार की है जिससे यह मालूम पड़े कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कितने पेंशनर्स इस समय हैं और उन सब पर इसको लागू किया जाय तो कितना खर्चा पड़ेगा ?

डा० सुशीला नायर : जी नहीं, ऐसी कोई सूची तैयार नहीं की गई।

दिल्ली में प्रयोगात्मक पाकशाला

\* 249. श्री राम सहाय : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या भारत सरकार दिल्ली में एक प्रयोगात्मक पाकशाला खोलने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो यह पाकशाला कब तक खुल जायेगी; और

(ग) यह पाकशाला कहां खोली जायेगी और इससे किस श्रेणी के लोगों को लाभ होगा ?

†[EXPERIMENTAL KITCHEN IN DELHI

\*249. SHRI RAM SAHAI : Will the Minister of HEALTH be pleased to state :

(a) whether Government propose to start an experimental kitchen in Delhi;

(b) if so, when this kitchen is likely to be started; and

(c) where it will be located and which categories of persons will be benefited therefrom ?]

स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० एम० नस्कर) : (क) से (ग) रेस्तरांओं और अन्य खाद्य विक्री स्थानों में दिए जाने वाले आहार नमूनों एवं व्यंजन सूचियों (मेन्यूज) के मानकीकरण के लिए राष्ट्रीय पोषण सलाहकार समिति द्वारा नियुक्त की गई उप-समिति ने मेन्यू प्लानिंग का जो वर्किंग ग्रुप बनाया था उसने पटियाला हाउस की एक विभागीय कैंटीन में एक प्रयोगात्मक पाकशाला खोलने के बारे में एक प्रस्ताव रखा है। यह प्रस्ताव विचाराधीन है।

†[THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HEALTH (SHRI P. S. NASKAR) : (a) to (c) The proposal of the Working Group on Menu Planning, formed by the sub-Committee for Standardising Diet Patterns and Menus served in Restaurants and other Eating Establishments, appointed by the National Nutrition Advisory Committee, regarding the starting of an experimental diet kitchen in the Departmental Canteen in Patiala House is under consideration.]

श्री राम सहाय : क्या मैं यह जान सकूंगा कि जो पाकशाला खोलने का विचार है उसके लिए जिम सामग्री की आवश्यकता होगी उसे किस तरह से मुहय्या किया जायगा ?

डा० सुशीला नायर : यह कहना तो बहुत कठिन है कि किस तरह से मुहय्या

†[ ] English translation.

किया जायगा । जो भी उचित, मुनासिब, तरीका होगा वह अपनाया जायगा । बात यह थी कि हम लोग अक्सर कहते हैं कि संतुलित आहार देना चाहिए, रेलवे को भी ऐसा आहार देना चाहिए, कैंटीन को भी देना चाहिए, तो वह संतुलित आहार सस्ते से सस्ता और अच्छे से अच्छा स्थानीय प्राप्त वस्तुओं से कैसे तैयार किया जा सकता है इस बारे में कुछ प्रयोग करने के लिए कमेटी ने सुझाव दिया है कि एक एक्सपेरिमेंटल कैंटीन या पाकशाला बनाई जाय ।

**श्री राम सहाय :** क्या मैं यह जान सकूंगा कि भविष्य में इस स्कीम को कुछ और बढ़ाने के खयाल से यह एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है ?

**डा० सुशीला नायर :** श्रीमन्, अगर इसमें से कुछ अच्छे नतीजे निकलेंगे तो जो भी इस कार्य का नतीजा होगा, वह जो जो खाना आज देते हैं, उन सब के पास हम पहुंचा देंगे और आशा है वे उसका अपना उपयोग करेंगे ।

**DR. SHRIMATI PHULRENU GUHA :** May I know, Sir, whether there will be any demonstration scheme there, whether people can participate in it and whether the people can learn from the kitchen ?

**DR. SUSHILA NAYAR :** Sir, this is a good suggestion; we shall bear it in mind.

**SHRI C. D. PANDE :** May I know, Sir, whether the results of the experiment made in this kitchen will be passed on to the caterers or they will have their own restaurant attached to this kitchen to prove to the public that the things are really good ?

**DR. SUSHILA NAYAR :** Well, Sir. There is a fair amount of catering done by Government in different departments, and in the first instance, if we can introduce the results of this experimentation in our own catering, it will be a good step forward.

**श्री बेबी सिंह :** क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यह जो प्रयोगशाला बनाई गई है उसके अंदर जो कार्य किया जाएगा या जो संचालक होंगे उनको क्या इसका तजुर्बा है और वे कौन कौन हैं, उनका कितना एक्सपेरियेंस है ।

**डा० सुशीला नायर :** श्रीमन् अभी तो सारी स्कीम ही विचारार्थीन है और मैं कैसे ये डीटेल्स दे सकूंगी ।

**SHRI M. RUTHNASWAMY :** May I know whether the cooking in this kitchen will be restricted to vegetarian food only ?

**DR. SUSHILA NAYAR :** No Sir. There will be both vegetarian and non-vegetarian foods experimented upon.

**MR. CHAIRMAN :** I thought the kitchen will arouse much more general interest and there will be more questions.

**SHRI BHUPESH GUPTA :** We are waiting for the food to come, Sir.

#### NEW HOTELS IN DELHI

\*250. { **SHRI P. ABRAHAM :**  
**DIWAN CHAMAN LALL .†**

Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to state :

(a) whether Government are planning to set up new hotels in Delhi and if so, how many and where;

(b) whether the new hotels will be constructed under the advice of architects with knowledge of modern hotel construction;

(c) whether a committee of the two Houses is proposed to be set up to examine, recommend and finalise all plans for the construction of these hotels;

(d) what financial allocations are being made for the purpose; and

†The question was actually asked on the floor of the House by Diwan Chaman Lall.